




टाउनशिप ऑफ एथेंस

www.athenstownship.ca

टाउनशिप ऑफ एथेंस इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है और यह झीलों और कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एथेंस गांव का चित्रण भित्ति चित्र में दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास का पता चलता है। चार्ल्सटन झील इस क्षेत्र का आकर्षण बिंदु माना जाता है और अपनी मनमोहक सुंदरता, पर्यटकों की गोपनीयता, और शांति के लिए जाना जाता है। चार्ल्सटन के गांव में खूबसूरत झील है और इसके दोनों किनारों नौकायन के शौकिनों और मछुआरों में बहुत लोकप्रिय हैं। एथेंस प्रत्येक वर्ष अपने कॉर्नफेस्ट और फार्मर्सविल स्टीम फेस्टीवल का आयोजन करता है। परेड ऑफ लाइट्स दिसंबर में पहले सप्ताहांत का प्रमुख कार्यक्रम है। फायरवर्क फेस्टीवल जुलाई के पहले हिस्से में मनाया जाता है जो गर्मियों में मनाया जानेवाला प्रमुख कार्यक्रम है और चार्ल्सटन झील रेगाटा अगस्त में लंबे सप्ताहांत में आयोजित किया जानेवाला कार्यक्रम है। एथेंस के टाउनशिप बड़े समुदाय के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन साथ ही इसमें छोटे शहर का सहज वातावरण मौजूद और यह कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। इस समुदाय के अनेक वर्ग व्यापार जुड़े हुए हैं जिनमें शामिल हैं - जी. टैकाबेरी एंड सन्स कान्स्ट्रक्शन लि., आर.ए. हॉवर्ड बस सर्विस लि., नॉलेज फ्लो कॉरपोरेशन, मैकॉन बिल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड और विलाड बेकरी उत्पाद.

कुल जनसंख्या 3,013 (Statistics Canada Census 2016)
जनवरी माह के मध्य तापमान -8 °C (27 °F)
जुलाई माह के मध्य तापमान 26 °C (70 °F)
औसत वार्षिक वर्षा 784 mm rain, 198 cm snow
औसत घरेलू आय \$84,570 (Statistics Canada 2016)
औसत बेरोजगारी दर 5-6 %
दसवीं कक्षा तक पढ़े वयस्क 765
कॉलेज या विश्वविद्यालय डिप्लोमा तक पढ़े वयस्क 1,275
औसत 2 बेडरूम के मासिक अपार्टमेंट किराये की लागत \$870
औसत 3 बेडरूम अलग बंगला: \$250,784



अधिक जानकारी

Darlene Noonan, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ)
टाउनशिप ऑफ एथेंस

1 Main Street, Athens, Ontario, KOE 1B0 Canada
613-924-2044 / Athens@myhighspeed.ca



where lifestyle
grows good business

www.leedsgrenville.com



Leeds & Grenville
IMMIGRATION
PARTNERSHIP

www.NewcomersInfo.ca